



भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन

साप्ताहिक सांख्यिकी संपूर्क

खंड 21, संख्या 44.

3 नवम्बर 2006

1. भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां

(करोड़ रुपये)

मद	2005	2006		घट-बढ़	
	28 अक्टू.	20 अक्टू.	27 अक्टू. #	सप्ताह	वर्ष
1	2	3	4	5	6
जारी नोट	3,85,629	4,60,032	4,62,912	2,881	77,283
संचलन में नोट	3,85,607	4,60,007	4,62,890	2,883	77,283
बैंकिंग विभाग में रखे नोट	22	25	23	-3	—
जमाराशियां					
केंद्र सरकार	1,598	9,811	5,968	-3,843	4,370
बाजार स्थिरीकरण योजना	69,752	40,922	40,091	-831	-29,661
राज्य सरकार	41	65	41	-23	—
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	1,04,663	1,34,185	1,22,259	-11,926	17,595
अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	1,704	1,874	1,830	-44	125
अन्य बैंक	5,627	6,500	6,287	-213	660
अन्य	10,066	11,629	11,725	96	1,659
अन्य देयताएं	1,28,098	1,68,770	1,71,340	2,570	43,242
कुल देयताएं / आस्तियां	7,07,179	8,33,787	8,22,453	-11,334	1,15,274
विदेशी मुद्रा आस्तियां ⁽¹⁾	6,20,583	7,21,805	7,24,586	2,781	1,04,003
सोने के सिक्के और सोना-चांदी ⁽²⁾	20,727	28,506	28,506	—	7,779
रुपया प्रतिभूतियां (खजाना बिलों सहित)	51,240	70,900	56,462	-14,438	5,222
ऋण और अग्रिम					
केंद्र सरकार	—	—	—	—	—
राज्य सरकारें	80	—	157	157	77
नाबार्ड	2,333	2,853	2,950	97	617
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	—	1,325	1,200	-125	1,200
अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	14	21	—	-21	-14
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	—	—	—	—	—
भारतीय निर्यात-आयात बैंक	—	—	—	—	—
अन्य	87	84	134	50	47
खरीदे और भुनाए गए बिल					
वाणिज्यिक	—	—	—	—	—
खजाना	—	—	—	—	—
निवेश ⁽³⁾	3,973	3,973	3,973	—	—
अन्य आस्तियां	8,142	4,320	4,486	165	-3,656

⁽¹⁾ विदेशी प्रतिभूतियां, विदेशों में रखी गई राशियां और विदेशी शेयरों / बांडों में किए गए निवेश शामिल हैं। ⁽²⁾ 17 अक्टूबर 1990 से स्वर्ण का मूल्य निर्धारण अंतरराष्ट्रीय बाजार मूल्यों के आसपास किया जाता है। ⁽³⁾ इसमें विदेशी शेयरों और बांडों तथा भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियों में किए गए निवेश शामिल नहीं हैं।

2. विदेशी मुद्रा भंडार

मद	27 अक्टू. 2006 को		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़							
			सप्ताह		मार्च 2006 की समाप्ति पर		दिसंबर 2005 की समाप्ति पर		वर्ष	
	करोड़ रुपये	मिलियन अ.डॉ.	करोड़ रुपये	मिलियन अ.डॉ.	करोड़ रुपये	मिलियन अ.डॉ.	करोड़ रुपये	मिलियन अ.डॉ.	करोड़ रुपये	मिलियन अ.डॉ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
कुल भंडार	7,56,052	1,67,092	2,810	939	79,665	15,470	1,37,669	29,886	1,08,294	23,318
(क) विदेशी मुद्रा आस्तियां	7,24,586	1,60,236	2,781	932*	77,259	15,128	1,34,089	29,218	1,04,003	22,604
(ख) स्वर्ण	28,506	6,202	—	—	2,832	447	4,736	928	7,779	1,490
(ग) विशेष आहरण अधिकार	33	7	27	6	21	4	13	2	13	3
(घ) आइएमएफ में प्रारक्षित अंश की स्थिति**	2,927	647	2	1	-447	-109	-1,169	-262	-3,501	-779

* : अ.डॉ. के रूप में दर्शाई गई विदेशी मुद्रा आस्तियों में भंडार में रखी गई अमरीकी मुद्राओं से इतर मुद्राओं (जैसे यूरो, स्टर्लिंग, येन) में होनेवाली मूल्यवृद्धि / मूल्यह्रास का प्रभाव शामिल है। विस्तृत विवरण के लिए कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन का वर्तमान सांख्यिकी खंड देखें।

** : अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) में प्रारक्षित स्थिति अर्थात प्रारक्षित अंश की स्थिति (आरटीपी) जिसे 23 मई 2003 से 26 मार्च 2004 तक ज्ञापन मद के रूप में दिखाया गया है उसे अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम संव्यवहार के अनुसार 2 अप्रैल 2004 को समाप्त सप्ताह से भंडार में शामिल किया गया है।

3. अनुसूचित वाणिज्य बैंक - भारत में कारोबार

(करोड़ रुपए)

मद	13 अक्तू. 2006 को बकाया #	निम्नलिखित की तुलना में घटबढ़				
		पखवाड़े में	वित्त वर्ष में अब तक		वर्ष-दर-वर्ष	
			2005-2006	2006-2007	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7
बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं						
बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां	33,032	-795	-4,706	-4,046	4,007	-5,769
बैंकों से उधार ⁽¹⁾	35,623	823	102	6,426	6,513	2,356
अन्य मांग और मीयादी देयताएं ⁽²⁾	8,283	505	3,140	-608	4,081	962
अन्य के प्रति देयताएं						
कुल जमाराशियां @	22,94,293	-8,089	1,15,309	1,85,244	2,98,229	3,93,849
		(-0.4)	(6.5)	(8.8)	(18.6)	(20.7)
मांग	3,56,001	-1,176	1,278	-8,639	58,205	68,706
मीयादी @	19,38,292	-6,913	1,14,031	1,93,883	2,40,025	3,25,142
उधार ⁽³⁾	84,039	-612	6,892	895	13,121	5,226
अन्य मांग और मीयादी देयताएं	2,11,492	-5,724	8,833	22,712	38,812	15,643
रिजर्व बैंक से उधार	550	-880	-95	-938	—	550
पास में नकदी एवं रिजर्व बैंक के पास जमा शेष	1,38,022	-16,391	21,523	-2,084	32,194	13,366
पास में नकदी	12,942	-1,124	578	-104	2,632	2,216
रिजर्व बैंक के पास जमा शेष	1,25,080	-15,267	20,946	-1,981	29,562	11,151
बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां						
अन्य बैंकों में जमाशेष ⁽⁴⁾	28,283	916	-101	1,820	7,040	4,215
मांग और अल्प सूचना पर प्राप्य राशि	19,631	1,255	1,683	6,012	4,612	-6,033
बैंकों को अग्रिम	5,948	1,975	-5,394	1,757	-6,124	2,555
अन्य आस्तियां	12,166	-3,092	1,346	2,047	1,494	8,231
निवेश⁽⁵⁾	7,64,368	11,605	3,400	46,914	38,087	20,705
		(1.5)	(0.5)	(6.5)	(5.4)	(2.8)
सरकारी प्रतिभूतियों में	7,42,538	11,654	3,903	41,796	40,438	18,378
अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	21,831	-49	-503	5,118	-2,352	2,327
बैंक ऋण	16,43,720	-11,014	1,19,168	1,36,643	2,99,151	3,72,342
		(-0.7)	(10.3)	(9.1)	(30.8)	(29.3)
खाद्य ऋण	33,445	-13	-2,808	-7,246	1,249	-3,763
खाद्येतर ऋण	16,10,275	-11,000	1,21,976	1,43,889	2,97,903	3,76,105
ऋण, कैश-क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट	15,66,819	-9,599	1,21,901	1,36,364	2,89,100	3,58,536
देशी बिल - खरीदे गए	10,460	444	-1,146	-2,454	2,462	839
भुनाए गए ⁽⁶⁾	29,788	-264	-1,024	-1,028	2,694	4,876
विदेशी बिल - खरीदे गए	14,522	-643	-1,228	1,447	1,175	3,451
भुनाए गए	22,132	-952	665	2,314	3,719	4,640
नकद-जमा अनुपात	6.02					
निवेश-जमा अनुपात	33.32					
ऋण-जमा अनुपात	71.64					

@ : इन आंकड़ों में 29 दिसंबर 2005 से इंडिया मिलेनियम डिपॉजिट की चुकौती की राशि भी शामिल है।

(1) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा अपने प्रायोजक बैंकों से लिए गए उधारों को छोड़कर। (2) जहां बैंकिंग प्रणाली के प्रति किसी देयता को पहचानना संभव नहीं हुआ है वहां इसे 'अन्य के प्रति देयताएं' की तदनु रूपी मदों में शामिल कर लिया गया है। (3) भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड और एक्जिम बैंक से इतर। (4) चालू खाते तथा अन्य खाते में। (5) इस सारणी में दिए गए निवेश सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) प्रयोजन के लिए हैं और इसमें सारणी 5 में अलग से दिए गए अन्य निवेश शामिल नहीं हैं। (6) इसमें भारतीय रिजर्व बैंक के पास पुनःभुनाए गए बिल शामिल नहीं हैं।

टिप्पणी : 1. 3 मई 2002 से हुए विलयनों के प्रभाव शामिल हैं।

2. वर्ष 2006-07 के दौरान वित्त वर्षीय घट-बढ़ अबतक 31 मार्च 2006 से निकाली गई है जबकि 2005-06 के दौरान संबंधित वित्त वर्षीय घट-बढ़ 1 अप्रैल 2005 से निकाली गई है।

4. आरक्षित नकदी निधि अनुपात और ब्याज दरें

(प्रतिशत प्रति वर्ष)

मद / सप्ताहांत	2005	2006					
	21 अक्तू.	15 सित.	22 सित.	29 सित.	6 अक्तू.	13 अक्तू.	20 अक्तू.
1	2	3	4	5	6	7	8
आरक्षित नकदी निधि अनुपात (प्रतिशत) ⁽¹⁾	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
बैंक दर	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
आइडीबीआई ⁽²⁾	10.25	10.25	10.25	10.25	10.25	10.25	10.25
मूल उधार दर ⁽³⁾	10.25-10.75	11.00-11.50	11.00-11.50	11.00-11.50	11.00-11.50	11.00-11.50	11.00-11.50
जमा दर ⁽⁴⁾	5.25-6.25	6.75/8.00	6.75/8.00	6.75/8.00	6.75/8.00	6.75/8.00	6.75/8.00
मांग मुद्रा दर (न्यून/उच्च) ⁽⁵⁾							
- लिये गए उधार	4.00/5.70	5.25/6.50	5.55/7.10	5.55/8.75	1.90/7.50	5.25/6.95	5.65/7.30
- दिये गए उधार	4.00/5.70	5.25/6.50	5.55/7.10	5.55/8.75	1.90/7.50	5.25/6.95	5.65/7.30

(1) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) से संबंधित आरक्षित नकदी निधि अनुपात। (2) न्यूनतम मीयादी उधार दर (एमटीएलआर)। (3) पांच प्रमुख बैंकों से संबंधित मूल उधार दर। (4) जमा दर प्रमुख बैंकों की एक वर्ष से अधिक परिपक्वतावाली मीयादी जमाराशियों से संबंधित। (5) इन आंकड़ों में सहभागियों द्वारा सूचित कुल लेनदेन के 90-95 प्रतिशत का शुमार हो जाता है।

5. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा वाणिज्य क्षेत्र को बैंक ऋण तथा शेयरों/डिबेंचरों/बाँडों/वाणिज्य पत्र आदि में निवेश के रूप में दी गई वित्तीय सहायता

(करोड़ रुपए)

मद	2006 - 2007			घट-बढ़ (3)-(2)	2005 - 2006		घट-बढ़ (6)-(5)
	निम्नलिखित को बकाया		निम्नलिखित को बकाया				
	2006		2005				
	31 मार्च	13 अक्तू.	1 अप्रैल		14 अक्तू.		
1	2	3	4	5	6	7	
1. बैंक ऋण	15,07,077	16,43,720	1,36,643 (9.1)	11,52,210	12,71,378	1,19,168 (10.3)	
क. खाद्य ऋण	40,691	33,445	-7,246	40,016	37,208	-2,808	
ख. खाद्येतर ऋण	14,66,386	16,10,275	1,43,889 (9.8)	11,12,194	12,34,170	1,21,976 (11.0)	
2. निवेश	79,464	80,642 @	1,178	93,084	82,125 +	-10,959	
क. वाणिज्यिक पत्र	4,821	7,211	2,389	3,798	3,916	117	
ख. निम्न (क+ख) द्वारा जारी शेयर	12,775	16,107	3,332	11,974	11,504	-470	
क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	2,274	2,117	-157	1,843	1,636	-207	
ख) निजी कंपनी क्षेत्र	10,501	13,990	3,489	10,131	9,868	-263	
ग. निम्न (क+ख) द्वारा जारी बांड/ डिबेंचर	61,868	57,324	-4,544	77,312	66,705	-10,607	
क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	32,345	30,627	-1,719	46,593	38,419	-8,173	
ख) निजी कंपनी क्षेत्र	29,523	26,697	-2,826	30,719	28,285	-2,434	
3. वित्तीय संस्थाओं के पास पुनःभुनाए गए बिल				401	784 ++	383	
4. कुल (1ख+2+3)	15,45,851	16,90,917	1,45,066	12,05,679	13,17,079	1,11,400	

@ : 29 सितंबर 2006 तक । + : 30 सितंबर 2005 तक । ++ : 30 अप्रैल 2005 तक ।

- टिप्पणी :** 1. निवेश संबंधी आंकड़े सांख्यिक धारा 42 (2) के अंतर्गत प्राप्त विवरणियों पर आधारित हैं।
 2. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े प्रतिशत घटबढ़ दर्शाते हैं।
 3. इनमें 3 मई 2002 से हुए विलय के प्रभाव शामिल हैं।
 4. वित्तीय वर्ष 2006-07 के लिए पुनर्भुनाई किए गये बिलों का डाटा उपलब्ध नहीं है।
 5. वर्ष 2006-07 के दौरान वित्त वर्षीय घट-बढ़ अबतक 31 मार्च 2006 से निकाली गई है जबकि 2005-06 के दौरान संबंधित वित्त वर्षीय घट-बढ़ 1 अप्रैल 2005 से निकाली गई।

6. विदेशी मुद्रा दरें - हाजिर और वायदा प्रीमिया

विदेशी मुद्रा						वार्षिक वृद्धि (+) / ह्रास (-) (प्रतिशत)					
2006											
						23 अक्टू.	24 अक्टू.+	25 अक्टू.+	26 अक्टू.	27 अक्टू.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
भारतीय रिजर्व बैंक की संदर्भ दर (रु. प्रति विदेशी मुद्रा)											
अमरीकी डॉलर		45.4000			45.3000	45.2200	—			-0.79	-0.35
यूरो		57.1800			57.2200	57.3400	—			-4.72	-4.99
फेडराल की सांकेतिक दरें (रु. प्रति विदेशी मुद्रा)											
अमरीकी	{	खरीद	45.3900		45.2950	45.2050	—			-0.81	-0.35
डॉलर		बिक्री	45.4000		45.3050	45.2150	—			-0.81	-0.35
पौंड	{	खरीद	85.3425		85.1900	85.4500	—			-5.88	-6.19
स्टर्लिंग		बिक्री	85.3700		85.2225	85.4800	—			-5.86	-6.17
यूरो	{	खरीद	57.1600		57.2125	57.3300	—			-4.81	-5.01
		बिक्री	57.1900		57.2375	57.3550	—			-4.81	-4.99
100 येन	{	खरीद	38.1950		38.1150	38.1700	—			2.51	2.13
		बिक्री	38.2125		38.1300	38.1850	—			2.51	2.15
अमरीकी डॉलर का अंतर-बैंक वायदा प्रीमियम (प्रतिशत वार्षिक)											
1 - माह			2.25		2.25	1.99					
3 - माह			1.81		1.77	1.64					
6 - माह			1.65		1.63	1.61					

— : पिछले वर्ष के तदनुसूची दिन को बाजार बंद था।

+ : बाजार बंद।

- टिप्पणी :** 1. एकीकृत विनिमय दर प्रणाली 1 मार्च 1993 से लागू हुई।
 2. रिजर्व बैंक द्वारा 1 जनवरी 2002 से यूरो संदर्भ दर घोषित की गई।

7. मुद्रा स्टॉक : घटक और स्रोत

(करोड़ रुपए)

मद	निम्न को बकाया		निम्न की तुलना में घट-बढ़									
	2006		पखवाड़ा		वित्त वर्ष में अब तक				वर्ष - दर - वर्ष			
	31 मार्च #	13 अक्टू. #	राशि	%	2005-2006		2006-2007		2005		2006	
					राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
एम ₃	27,29,535	29,43,426	1,009	—	1,41,555	6.1	2,13,891	7.8	3,56,328	16.8	4,69,205	19.0
घटक (i+ii+iii+iv)												
(i) जनता के पास मुद्रा	4,13,143	4,44,102	9,417	2.2	23,787	6.7	30,960	7.5	48,164	14.6	65,445	17.3
(ii) बैंकों के पास मांग जमा	4,05,224	3,94,834	-1,221	-0.3	2,109	0.7	-10,389	-2.6	62,732	24.1	71,363	22.1
(iii) बैंकों के पास मीयादी जमा @	19,04,290	20,99,030	-6,920	-0.3	1,16,886	7.1	1,94,740	10.2	2,47,009	16.3	3,32,030	18.8
(iv) रिजर्व बैंक के पास 'अन्य' जमा	6,879	5,460	-267	-4.7	-1,227	-19.4	-1,419	-20.6	-1,577	-23.6	367	7.2
स्रोत (i+ii+iii+iv+v)												
(i) सरकार को निवल बैंक ऋण (क+ख)	7,69,093	8,05,300	3,388	0.4	22,133	3.0	36,207	4.7	12,451	1.6	34,460	4.5
(क) रिजर्व बैंक	8,136	2,776	-8,240		16,329		-5,361		-32,198		14,109	
(ख) अन्य बैंक	7,60,956	8,02,524	11,628	1.5	5,805	0.7	41,568	5.5	44,649	6.1	20,351	2.6
(ii) वाणिज्य क्षेत्र को बैंक ऋण (क+ख)	16,90,961	18,36,535	-10,405	-0.6	1,21,888	9.2	1,45,575	8.6	3,07,696	26.9	3,83,390	26.4
(क) रिजर्व बैंक	1,387	1,384	-88	-6.0	-3	-0.2	-3	-0.2	-503	-26.6	-3	-0.2
(ख) अन्य बैंक	16,89,574	18,35,151	-10,317	-0.6	1,21,890	9.2	1,45,577	8.6	3,08,198	27.0	3,83,392	26.4
(iii) बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	7,26,194	7,87,161	-8,512	-1.1	26,080	4.0	60,967	8.4	93,449	16.1	1,13,179	16.8
(iv) जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयताएं	8,754	8,931	—	—	1,293	17.4	177	2.0	1,400	19.1	189	2.2
(v) बैंकिंग क्षेत्र की मीयादी जमा से भिन्न निवल मुद्देतर देयताएं	4,65,466	4,94,501	-16,538	-3.2	29,840	7.4	29,035	6.2	58,667	15.7	62,013	14.3
उनमें से : रिजर्व बैंक की निवल मुद्देतर देयताएं	1,23,990	1,66,365	-10,808	-6.1	-2,390	-1.9	42,374	34.2	-14,738	-10.9	45,541	37.7

@ : इन आंकड़ों में 29 दिसम्बर 2005 से इंडिया मिलेनियम डिपाजिट की चुकौती की राशि भी शामिल है।

टिप्पणी : वर्ष 2006-07 के दौरान वित्त वर्षीय घट-बढ़ अबतक 31 मार्च 2006 से निकाली गई है जबकि 2005-06 के दौरान संबंधित वित्त वर्षीय घट-बढ़ 1 अप्रैल 2005 से निकाली गई।

8. आरक्षित मुद्रा : घटक और स्रोत

(करोड़ रुपए)

मद	निम्न को बकाया		निम्न की तुलना में घट-बढ़									
	2006		सप्ताह		वित्त वर्ष में अब तक				वर्ष-दर-वर्ष			
	31 मार्च #	27 अक्टू. #	राशि	%	2005-2006		2006-2007		2005		2006	
					राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
आरक्षित मुद्रा	5,73,066	6,07,746	-9,204	-1.5	21,775	4.5	34,680	6.1	68,531	15.5	96,835	19.0
घटक (i+ii+iii)												
(i) संचलन में करेंसी	4,30,676	4,71,820	2,883	0.6	25,621	6.9	41,145	9.6	52,118	15.2	77,539	19.7
(ii) रिजर्व बैंक के पास बैंकर की जमा	1,35,511	1,30,375	-12,183	-8.5	-2,001	-1.8	-5,136	-3.8	18,279	19.5	18,381	16.4
(iii) रिजर्व बैंक के पास "अन्य" जमा	6,879	5,550	96	1.8	-1,844	-28.5	-1,329	-19.3	-1,867	-28.7	916	19.8
स्रोत (i+ii+iii+iv+v)												
(i) रिजर्व बैंक द्वारा सरकार को दिया गया निवल ऋण :												
उसमें से - केंद्र को	8,136	10,732	-9,392		-1,840		2,596		-42,369		30,547	
	5,160	10,617	-9,572		3,405		5,457		-37,988		30,470	
(ii) बैंकों और वाणिज्य क्षेत्र को रिजर्व बैंक द्वारा दिया गया ऋण - उसमें से: बैंकों को (नाबार्ड सहित)	7,182	6,807	2	—	-1,691	-25.4	-375	-5.2	770	18.4	1,850	37.3
	5,795	5,423	2	—	-1,688	-32.1	-372	-6.4	1,272	55.4	1,853	51.9
(iii) रिजर्व बैंक की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	6,72,983	7,53,075	2,781	0.4	28,502	4.7	80,092	11.9	96,329	17.7	1,11,782	17.4
(iv) जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयता	8,754	8,931	—	—	1,227	16.5	177	2.0	1,314	17.9	256	2.9
(v) रिजर्व बैंक की निवल मुद्देतर देयता	1,23,990	1,71,799	2,595	1.5	4,424	3.7	47,809	38.6	-12,486	-9.1	47,600	38.3

9. चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रेपो/रिवर्स रेपो की नीलामी

(करोड़ रुपए)

चलनिधि समायोजन सुविधा (तारीख)	रेपो अवधि (दिन)	रेपो (बढ़ाना)					रिवर्स रेपो (घटाना)					चलनिधि में की गई निवल वृद्धि(+) / कमी(-) (6-11)	बकाया राशि @
		प्राप्त बोलियां		स्वीकृत बोलियां		कट-ऑफ दर (%)	प्राप्त बोलियां		स्वीकृत बोलियां		कट-ऑफ दर (%)		
		संख्या	राशि	संख्या	राशि		संख्या	राशि	संख्या	राशि			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23 अक्टू. 2006	3	5	1,445	5	1,445	7.00	2	85	2	85	6.00	1,360	-740
\$	3	1	20	1	20	7.00	4	640	4	640	6.00	-620	
26 अक्टू. 2006	1	1	10	1	10	7.00	—	—	—	—	—	10	16,325
\$	1	—	—	—	—	—	18	16,335	18	16,335	6.00	-16,335	
27 अक्टू. 2006	3	—	—	—	—	—	6	4,160	6	4,160	6.00	-4,160	12,270
\$	3	1	330	1	330	7.00	19	8,440	19	8,440	6.00	-8,110	

@ : रातभर के रेपो को घटाकर।

* — * : नीलामी में कोई बोली प्राप्त नहीं हुई।

\$: 28 नवम्बर 2005 से शुरू हुई दूसरी एलएएफ नीलामी।

टिप्पणी : 29 अक्टूबर 2004 से रिपो और रिवर्स रिपो के नाम अंतर्राष्ट्रीय प्रयोग के अनुसार बदल दिए गए हैं।

10. भारत सरकार खजाना बिलों की नीलामी

(करोड़ रुपए)

नीलामी की तारीख	निर्गम की तारीख	अधिसूचित राशि	प्राप्त बोलियां			स्वीकृत बोलियां			भा.रि. बैंक पर भार	कुल निर्गम (8+9+10)	भारित औसत मूल्य	कट-ऑफ मूल्य पर निहित आय (प्रतिशत)	निर्गम की तारीख को बकाया राशि (अंकित मूल्य)	
			सं.	कुल अंकित मूल्य		सं.	कुल अंकित मूल्य							
				प्रतियोगी	अप्रतियोगी		प्रतियोगी	अप्रतियोगी						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
91-दिवसीय खजाना बिल														
2006-2007														
5 अप्रैल	7 अप्रैल	500	42	3,448	—	3	500	—	—	500	98.58	5.7776	16,318	
5 जुलाई	7 जुलाई	2,000	56	3,516	—	31	2,000	—	—	2,000	98.44	6.3977	24,180	
4 अक्तू.	6 अक्तू.	2,000	44	2,886	2,100	26	2,000	2,100	—	4,100	98.39	6.6048	35,161	
26 अक्तू.	27 अक्तू.	2,000	36	2,466	—	5	651	—	—	651	98.37	6.6462	29,757	
182-दिवसीय खजाना बिल														
2006-2007														
5 अप्रैल	7 अप्रैल	500	37	2,833	—	6	500	—	—	500	97.04	6.1386	8,771	
12 जुलाई	14 जुलाई	1,500	40	1,295	—	16	525	—	—	525	96.77	6.7368	11,607	
4 अक्तू.	6 अक्तू.	1,500	33	2,447	—	18	1,500	—	—	1,500	96.74	6.8011	20,707	
18 अक्तू.	20 अक्तू.	1,500	31	1,140	500	17	620	500	—	1,120	96.70	6.8869	21,327	
364-दिवसीय खजाना बिल														
2006-2007														
12 अप्रैल	15 अप्रैल	1,000	37	2,276	—	3	1,000	—	—	1,000	94.31	6.0611	41,938	
5 जुलाई	7 जुलाई	2,000	110	6,285	—	27	2,000	—	—	2,000	93.45	7.0513	43,269	
11 अक्तू.	13 अक्तू.	2,000	58	4,680	17	24	2,000	17	—	2,017	93.56	6.9137	43,983	
26 अक्तू.	27 अक्तू.	2,000	56	3,415	—	17	1,285	—	—	1,285	93.49	6.9939	43,268	

टिप्पणियाँ : 1. 91 दिवसीय खजाना बिलों हेतु 6 नवम्बर 1998 को एकसमान मूल्य नीलामी का प्रारंभ हुआ। नीलामी का फॉर्मेट 11 दिसम्बर 2002 से बहु मूल्य नीलामी में परिवर्तित किया गया है।

2. 91 दिवसीय खजाना बिलों के लिए अधिसूचित राशि रु. 2,000 करोड़ में बाजार स्थिरीकरण योजना (एमएसएस) के तहत रु. 1,500 करोड़ की राशि शामिल है। 182 दिवसीय खजाना बिलों हेतु अधिसूचित राशि रु. 1,500 करोड़ में एमएसएस के तहत रु. 1,000 करोड़ की राशि है। 364 दिवसीय खजाना बिलों हेतु अधिसूचित राशि रु. 2,000 करोड़ में एमएसएस के तहत रु. 1,000 करोड़ की राशि है।

3. 2 जून 1999 से प्रभावी 364 दिवसीय खजाना बिलों के मामले में नीलामी में अप्रतियोगिता बोलियों की अनुमति दी गई है।

4. कट-ऑफ कीमत पर निहित लाभ को वास्तविक /364 दिवस के आधार पर गिनती करने की प्रथा को 27 अक्टूबर 2004 को नीलामी से वास्तविक /365 दिवस की गिनती की प्रथा में कर दिया गया परिवर्तित है।

11. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) का भा.रि. बैंक के पास संचयी नकद जमा शेष (करोड़ रुपए)

को समाप्त पखवाड़ा	दिनांक													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13 अक्टू. 2006	30 सितं.	1 अक्टू.	2 अक्टू.	3 अक्टू.	4 अक्टू.	5 अक्टू.	6 अक्टू.	7 अक्टू.	8 अक्टू.	9 अक्टू.	10 अक्टू.	11 अक्टू.	12 अक्टू.	13 अक्टू.
	1,42,695	2,85,389	4,28,084	5,57,596	6,80,311	8,00,006	9,19,715	10,37,756	11,55,797	12,68,903	13,85,592	15,02,111	16,19,515	17,44,070
27 अक्टू. 2006	14 अक्टू.	15 अक्टू.	16 अक्टू.	17 अक्टू.	18 अक्टू.	19 अक्टू.	20 अक्टू.	21 अक्टू.	22 अक्टू.	23 अक्टू.	24 अक्टू.	25 अक्टू.	26 अक्टू.	27 अक्टू.
	1,25,422	2,50,844	3,75,654	5,12,852	6,42,712	7,73,278	9,06,727	10,40,176	11,73,626	13,03,380	14,33,017	15,65,421	16,81,470	18,03,248

टिप्पणी : ये आंकड़े पखवाड़े के दौरान भा.रि. बैंक के पास संचयी आधार पर रखी गई अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल नकद जमा शेष के हैं।

12. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा जारी किए गए जमा प्रमाण-पत्र

(करोड़ रुपए)

को समाप्त पखवाड़ा	कुल बकाया राशि #	पखवाड़े के दौरान जारी #	ब्याज दर (प्रतिशत) @
1	2	3	4
14 अक्टू. 2005	27,626	2,078	4.66 — 7.75
6 जन. 2006	34,432	2,556	4.40 — 7.75
14 अप्रैल 2006	38,568	2,005	6.00 — 8.90
7 जुलाई 2006	57,256	4,647	6.00 — 8.70
1 सितं. 2006	66,340	3,949	4.60 — 8.50
15 सितं. 2006	63,864	1,821	7.13 — 8.50

@ : प्रभावी वार्षिक ब्याज दर परास।

13. कंपनियों द्वारा जारी किए गए वाणिज्यिक पत्र (अंकित मूल्य पर)

(करोड़ रुपए)

को समाप्त पखवाड़ा	कुल बकाया राशि	पखवाड़े के दौरान सूचित	ब्याज दर (प्रतिशत) @
1	2	3	4
15 अक्तू. 2005	18,702	1,008	5.69 — 7.50
15 जन. 2006	17,415	844	6.50 — 7.75
15 अप्रैल 2006	12,968	1,423	6.77 — 8.95
15 जुलाई 2006	21,237	3,389	6.25 — 8.30
30 सितं. 2006	24,419	2,713	7.10 — 9.25
15 अक्तू. 2006	23,361	1,733	7.20 — 8.65

@ : पखवाड़े के दौरान निर्गमों पर लागू प्रतिरूपी प्रभावी वार्षिक बड़ा दर का परास।

14. थोक मूल्यों के सूचकांक (आधार : 1993-94=100)

मद / समाप्त सप्ताह	भार	2005	2006		पर प्रतिशत उतार चढ़ाव			
		15 अक्तू.	19 अगस्त *	14 अक्तू. #	सप्ताह	महीना	मार्च के अंत में	वर्ष
1	2	3	4	5	6	7	8	9
सभी पण्य	100.00	197.8	205.5	208.2	0.1	0.9	5.6	5.3
प्राथमिक वस्तुएं	22.02	197.9	205.7	212.4	0.2	0.6	9.9	7.3
(i) फल और सब्जियां	2.92	235.6	219.4	253.0	0.8	1.7	28.3	7.4
ईंधन, विद्युत, प्रकाश और लुब्रिकैंट	14.23	313.1	328.7	329.5	—	1.4	4.2	5.2
विनिर्मित उत्पाद	63.75	172.1	177.9	179.7	0.2	0.9	4.5	4.4
i) चीनी, खांडसारी और गुड़	3.93	177.8	185.3	183.6	-0.2	-0.4	-0.6	3.3
ii) खाद्य तेल	2.76	146.7	151.9	154.8	0.2	0.6	7.6	5.5
iii) सीमेंट	1.73	166.5	195.0	197.0	0.2	1.4	6.2	18.3
iv) लोहा और इस्पात	3.64	258.5	254.0	258.9	—	1.8	14.2	0.2

* : उपलब्ध अद्यतन अंतिम आंकड़े।

: आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार।

15. साधारण शेयर मूल्यों का बीएसई संवेदी सूचकांक तथा एनएसई निफ्टी सूचकांक - मुंबई

	2005	2006				
	27 अक्तू.	23 अक्तू.	24 अक्तू. +	25 अक्तू. +	26 अक्तू.	27 अक्तू.
1	2	3	4	5	6	7
बीएसई संवेदी सूचकांक (1978-79=100)	7798.49	12623.28			12698.41	12906.81
एसएंडपी सीएनएस निफ्टी (3.11.1995=1000)	2352.90	3657.30			3677.55	3739.35

+ : बाजार बंद।

16. मांग मुद्रा बाजार में औसत दैनिक पण्यवर्त (टर्नओवर) *

(करोड़ रुपए)

	समाप्त सप्ताह						
	15 सितं. 2006	22 सितं. 2006	29 सितं. 2006	6 अक्तू. 2006	13 अक्तू. 2006	20 अक्तू. 2006	27 अक्तू. 2006
1	2	3	4	5	6	7	8
1. बैंक							
क) लिए गए उधार	8,899	9,387	10,781	8,349	10,383	11,964	11,694
ख) दिए गए ऋण	11,474	11,624	12,481	10,165	12,599	13,585	13,649
2. प्राथमिक व्यापारी							
क) लिए गए उधार	2,586	2,336	2,170	1,857	2,299	1,988	2,253
ख) दिए गए ऋण	11	99	470	42	84	366	297
3. कुल							
क) लिए गए उधार	11,485	11,723	12,950	10,206	12,682	13,952	13,946
ख) दिए गए ऋण	11,485	11,723	12,950	10,206	12,682	13,952	13,946

टिप्पणी : 1. ये आंकड़े सप्ताह भर की दैनिक मांग मुद्रा पण्यवर्त का औसत हैं (शनिवार से शुक्रवार)।

* : इन आंकड़ों में सहभागियों द्वारा सूचित कुल लेनदेन के 90-95 प्रतिशत का शुमार हो जाता है।

2. 6 अगस्त 2005 से बैंक और प्राथमिक व्यापारी पात्र सहभागी हैं।

17. सरकारी प्रतिभूति बाजार में पण्यवर्त (अंकित मूल्य) @

(करोड़ रुपए)

मद	समाप्त सप्ताह					
	22 सितं. 2006	29 सितं. 2006	6 अक्तू. 2006	13 अक्तू. 2006	20 अक्तू. 2006	27 अक्तू. 2006
1	2	3	4	5	6	7
I. तत्काल (आउटराइट) लेनदेन						
क) भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां	45,063	67,941	34,658	41,497	30,279	15,667
ख) राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	616	381	143	120	436	77
ग) 91 - दिवसीय खजाना बिल	784	744	2,425	1,704	1,358	412
घ) 182 - दिवसीय खजाना बिल	1,259	588	611	1,123	950	450
ङ) 364 - दिवसीय खजाना बिल	3,384	3,330	2,791	3,480	2,284	579
II. भारतीय रिज़र्व बैंक *	16	15	88	13	132	—

@ : रेपो लेनदेन को छोड़कर।

* : भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा की गई प्रतिभूतियों की बिक्री और खरीद में उसके अन्य कार्यालयों के लेनदेन भी शामिल हैं।

18. विदेशी मुद्रा बाजार में पण्यवर्त (टर्नओवर)

(मिलियन अमरीकी डॉलर)

स्थिति की तारीख	वणिज्य						अंतर बैंक					
	एफ सी वाई / आइ एन आर			एफ सी वाई / एफ सी वाई			एफ सी वाई / आइ एन आर			एफ सी वाई / एफ सी वाई		
	हाजिर	वायदा	वायदा निरसन	हाजिर	वायदा	वायदा निरसन	हाजिर	अदला बदली	वायदा	हाजिर	अदला बदली	वायदा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
खरीद												
9 अक्टू. 2006	777	393	165	671	804	917	1,948	994	105	3,005	679	51
10 अक्टू. 2006	554	581	188	387	313	435	2,231	1,971	187	2,290	789	42
11 अक्टू. 2006	1,271	581	283	473	599	640	2,717	2,130	180	2,529	910	138
12 अक्टू. 2006	2,206	523	338	528	206	528	2,056	2,335	368	2,421	845	91
13 अक्टू. 2006	1,629	832	245	647	407	696	2,732	3,361	490	2,607	787	113
बिक्री												
9 अक्टू. 2006	826	362	204	673	666	969	1,833	1,022	125	3,032	647	50
10 अक्टू. 2006	915	349	165	384	331	409	2,266	2,011	104	2,239	838	68
11 अक्टू. 2006	1,247	437	468	541	571	685	2,596	2,207	213	2,569	968	100
12 अक्टू. 2006	2,259	554	385	515	220	518	2,009	2,333	382	2,450	960	127
13 अक्टू. 2006	1,136	1,332	494	590	394	734	2,773	3,105	462	2,586	844	92

एफ सी वाई = विदेशी मुद्रा ।

आइ एन आर = भारतीय रुपया ।

+ : बाजार बंद ।

टिप्पणी: ये आंकड़े वणिज्य और अंतर बैंक लेन-देन के कारण विदेशी मुद्रा की खरीद और बिक्री से संबंधित हैं।

19. राष्ट्रीय शेयर बाजार में हुए कंपनी ऋण कारोबार की साप्ताहिक मात्रा

(करोड़ रुपए)

	समाप्त सप्ताह					
	22 सितं. 2006	29 सितं. 2006	6 अक्टू. 2006	13 अक्टू. 2006	20 अक्टू. 2006	27 अक्टू. 2006
1	2	3	4	5	6	7
राशि	55.73	25.43	—	65.98	120.22	20.41

टिप्पणी : 8 अक्टूबर 2005 से थोक ऋण बाजार घटक में प्रत्येक शनिवार को व्यापार बंद रहेगा ।

स्रोत : भारतीय राष्ट्रीय शेयर बाजार लि.

20. भारत सरकार : बकाया खजाना बिल (अंकित मूल्य)

(करोड़ रुपए)

धारक	27 अक्टूबर 2006					कुल खजाना बिलों में घट-बढ़	
	अलग-अलग परिपक्वता वाले खजाना बिल				कुल (2+3+4+5)	सप्ताह की तुलना में के अंत में	मार्च के अंत में
	14 दिवसीय (मध्यवर्ती)	91 दिवसीय (नीलामी)	182 दिवसीय (नीलामी)	364 दिवसीय (नीलामी)			
1	2	3	4	5	6	7	8
भारतीय रिजर्व बैंक	—	—	—	—	—	—	—
बैंक	—	16,306	12,537	28,556	57,399	-1,336	6,682
राज्य सरकारें	36,205	8,485	5,532	5,800	56,022	-1,330	4,156
अन्य	139	4,965	3,258	8,912	17,275	465	9,633

21. भारत सरकार : दीर्घावधि और मध्यावधि उधार
(भा.रि.बैंक पर भार (डिवाल्वमेंट) / निजी जमा तथा खुला बाजार परिचालनों में विक्री / खरीद)

(अंकित मूल्य करोड़ रुपए में)

	जुटायी गई सकल राशि			जुटाई गई निवल राशि		
	2006-2007 (27 अक्टू. 2006 तक)	2005-2006 (28 अक्टू. 2005 तक)	2005-2006	2006-2007 (27 अक्टू. 2006 तक)	2005-2006 (28 अक्टू. 2005 तक)	2005-2006
1	2	3	4	5	6	7
1. कुल जिसमें :	98,000	90,000 *	1,37,000 *	62,986	51,370	95,370
1.1 भारिबैं पर भार / निजी जमा	—	—	10,000	—	—	—
2. भारिबैं के खुला बाजार परिचालन - विक्री खरीद	3,635 690	2,607 —	4,653 740	—	—	—

* : बाजार स्थिरीकरण योजना के अंतर्गत 6,000 करोड़ रुपए शामिल हैं।

22. द्वितीयक बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों का कारोबार (अंकित मूल्य) @

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	20 अक्टू. 2006 को समाप्त सप्ताह			27 अक्टू. 2006 को समाप्त सप्ताह		
	राशि	परिपक्वता आय अनुपात (% वार्षिक) सांकेतिक**		राशि	परिपक्वता आय अनुपात (% वार्षिक) सांकेतिक**	
		न्यूनतम	अधिकतम		न्यूनतम	अधिकतम
1	2	3	4	5	6	7
I. तत्काल (आउटराइट) लेन देन						
1. भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां						
परिपक्वता वर्ष						
2006-07	—	—	—	—	—	—
2007-08	271	6.8672	7.0279	—	—	—
2008-09	755	7.0943	7.5000	283	7.6877	7.7558
2009-10	140	7.2301	7.2352	35	7.2300	7.2339
2010-11	119	7.2955	7.3854	26	7.3853	7.3853
2011-12	2,280	7.3792	8.0733	1,636	7.3959	8.0580
2012-15	620	7.4434	8.2136	293	7.3408	8.2141
2015-16	1	—	—	—	—	—
2016 से आगे	10,954	7.5928	8.1567	5,561	7.6305	8.1532
2. राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	218	7.7600	7.9958	38	7.9014	7.9204
3. खजाना बिल (शेष परिपक्वता अवधि दिनों में)						
क) 14 दिन तक	230	6.7002	6.8501	139	6.4500	7.3790
ख) 15 - 91 दिन	994	6.0505	6.6462	460	6.4996	6.6601
ग) 92 - 182 दिन	640	6.6499	6.8815	65	6.6498	6.8600
घ) 183 - 364 दिन	432	6.8300	6.9300	57	6.9000	6.9595
II. भा.रि.बैं. : विक्री	132					
: खरीद	—					
III. रेपो लेन देन £ (भा. रि. बैं. से इतर)						
	राशि	दरें (% वार्षिक)		राशि	दरें (% वार्षिक)	
		न्यूनतम	अधिकतम		न्यूनतम	अधिकतम
1. भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां	52,330	5.75 (1)	7.25 (10)	29,152	5.75 (1)	7.15 (4)
2. राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	841	6.25 (1)	6.80 (8)	367	6.15 (1)	6.90 (4)
3. 91 - दिवसीय खजाना बिल	508	6.30 (1)	6.85 (3)	552	6.10 (1)	6.95 (3)
4. 182 - दिवसीय खजाना बिल	271	6.25 (1)	6.50 (1)	568	6.15 (1)	6.95 (4)
5. 364 - दिवसीय खजाना बिल	2,485	6.20 (1)	6.95 (3)	2,762	6.10 (1)	6.95 (3)
IV. भा.रि.बैं. : रेपो £^	2,585	7.00	7.00	1,805	7.00	7.00
: रिवर्स रेपो !	9,605	6.00	6.00	29,660	6.00	6.00

@ : भा.रि.बैं. के एसजीएल खातों में दर्ज सूचना में 'वेन इश्यूड' लेन देन शामिल है।

* : भा.रि.बैं. बिक्री और खरीद में अन्य कार्यालयों में हुए लेन देन भी शामिल हैं।

£ : कारोबार का पहला चरण (फस्ट लेग) दर्शाता है।

^ : दिनांक 5 जून 2000 से प्रभावी चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रेपो नीलामी से संबंधित आंकड़े (देखें सारणी 9)।

! : चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रिवर्स रेपो नीलामी शामिल है।

** : न्यूनतम और अधिकतम सांकेतिक परिपक्वता-आय अनुपात (% वार्षिक) गैर मानक समूह (5 करोड़ रुपये से कम) के कारोबार को छोड़कर दर्शाया गया है।

टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़े रेपो अवधि दर्शाते हैं।

उपर्युक्त जानकारी इंटरनेट पर <http://www.wss.rbi.org.in> से सीधे प्राप्त की जा सकती है।

आंकड़ों के पूर्णांकन के कारण हो सकता है घटक मदों का जोड़ कुल जोड़ से मेल न खाए।
साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक में प्रयुक्त प्रतीक .. = अनुपलब्ध - = शून्य / नगण्य # = अंतिम

साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक का एक वर्ष और तीन वर्ष के लिए शुल्क (डाक व्यय सहित) भारत में क्रमशः 400 रुपए और 1,100 रुपए तथा विदेश में क्रमशः 25 अमरीकी डॉलर और 70 अमरीकी डॉलर हैं। एक प्रति का मूल्य 8 रुपए है।

श्री. ए. करुणागरन द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई - 400 001 के लिए प्रकाशित और उनके

द्वारा ऑनलुकर प्रेस लि., 16, ससून डॉक, कुलाबा, मुंबई - 400 005 टेलि. : 2218 3544 फ़ैक्स : (91-22) 2218 8702 में मुद्रित।

पंजीकरण सं. आरएन.43801/86

पंजीकृत सं.

एमएच/एमआर/साउथ-208/2006-08